

Series GEFH1/3



SET ~ 1

रोल नं.

Roll No.



प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code

55/3/1

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book. *

भौतिक विज्ञान (सैद्धान्तिक) PHYSICS (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70

नोट / NOTE :

- (i) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं ।
Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- (ii) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं ।
Please check that this question paper contains 35 questions.
- (iv) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- (v) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 19 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के दो-दो अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 30 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के पाँच-पाँच अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 34 तथा 35 केस-आधारित चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 2 प्रश्नों में, खण्ड घ के 3 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

भौतिक नियतांकों के निम्नलिखित मान, आवश्यकता अनुसार उपयोग करें:

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (m}_e\text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{न्यूट्रॉन का द्रव्यमान} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{प्रोटॉन का द्रव्यमान} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{आवोगाद्रो संख्या} = 6.023 \times 10^{23} \text{ प्रति ग्राम मोल (per gram mole)}$$

$$\text{बोल्ट्ज़मान नियतांक} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **35** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.
- (iii) In **Section A** – Questions no. **1** to **18** are Multiple Choice (MCQ) type questions, carrying **1** mark each.
- (iv) In **Section B** – Questions no. **19** to **25** are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In **Section C** – Questions no. **26** to **30** are Short Answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In **Section D** – Questions no. **31** to **33** are Long Answer (LA) type questions carrying **5** marks each.
- (vii) In **Section E** – Questions no. **34** and **35** are case-based questions carrying **4** marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 2 questions in Section C, 3 questions in Section D and 2 questions in Section E.
- (ix) Use of calculators is **not** allowed.

Use the following values of physical constants, if required :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{Mass of electron (} m_e \text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of neutron} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of proton} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Avogadro's number} = 6.023 \times 10^{23} \text{ per gram mole}$$

$$\text{Boltzmann constant} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



खण्ड क

1. कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र \vec{E} में $(1.6 \times 10^{-16} \text{ N}) \hat{i}$ बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र \vec{E} है :

- (a) $(1.0 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}) \hat{i}$ (b) $-(1.0 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}) \hat{i}$
(c) $(1.0 \times 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{C}}) \hat{i}$ (d) $-(1.0 \times 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{C}}) \hat{i}$


2. निम्नलिखित में से कौन-सी एक अदिश राशि **नहीं** है ?

- (a) विद्युत क्षेत्र (b) वोल्टता
(c) प्रतिरोधकता (d) शक्ति

3. किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह के कारण धारा घनत्व होता है : (यहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं)

- (a) $n e A v_d$ (b) $\frac{n A v_d}{e}$
(c) $\frac{n v_d}{e A}$ (d) $n e v_d$

4. निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राफ किसी त्रिज्या 'a' के अनन्त लम्बाई के धारावाही सीधे तार के केन्द्र से दूरी 'r' को फलन मानकर उसके बाहर के चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण के विचरण का सही निरूपण करता है ?



5. एकसमान वेग $\vec{v} = v_{0x} \hat{i} + v_{0y} \hat{j}$ से गतिमान द्रव्यमान m और आवेश q का कोई कण किसी चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 \hat{j}$ के प्रदेश में प्रवेश करता है। कुछ समय पश्चात् इसी प्रदेश में किसी विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = E_0 \hat{j}$ का भी स्विच ऑन कर दिया जाता है।

कण का परिणामी पथ होगा :

- (a) x-z तल में कोई वृत्त
(b) x-y तल में कोई परवलय
(c) नियत चूड़ी-अन्तराल की कोई कुण्डलिनी (हेलिक्स)
(d) वर्धमान चूड़ी-अन्तराल की कोई कुण्डलिनी (हेलिक्स)



SECTION A

1. An electron experiences a force $(1.6 \times 10^{-16} \text{ N}) \hat{i}$ in an electric field \vec{E} . The electric field \vec{E} is :

- (a) $(1.0 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}) \hat{i}$ (b) $-(1.0 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{C}}) \hat{i}$
(c) $(1.0 \times 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{C}}) \hat{i}$ (d) $-(1.0 \times 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{C}}) \hat{i}$


2. Which one of the following is **not** a scalar quantity ?

- (a) Electric field (b) Voltage
(c) Resistivity (d) Power

3. The current density due to drift of electrons in a conductor is given by : (symbols have their usual meanings)

- (a) $n e A v_d$ (b) $\frac{n A v_d}{e}$
(c) $\frac{n v_d}{e A}$ (d) $n e v_d$

4. Which of the following graphs correctly represents the variation of the magnitude of the magnetic field outside a straight infinite current carrying wire of radius 'a', as a function of distance 'r' from the centre of the wire ?



5. A particle of mass m and charge q moving with a uniform velocity $\vec{v} = v_{0x} \hat{i} + v_{0y} \hat{j}$ enters a region with a magnetic field $\vec{B} = B_0 \hat{j}$. After

some time, an electric field $\vec{E} = E_0 \hat{j}$ is also switched on in the region.

The resulting path described by the particle will be :

- (a) a circle in x-z plane
(b) a parabola in x-y plane
(c) a helix with constant pitch
(d) a helix with increasing pitch



6. कोई प्रेरक, कोई संधारित्र और कोई प्रतिरोधक श्रेणी में किसी ac वोल्टता स्रोत के सिरों से संयोजित हैं। यदि स्रोत की आवृत्ति को धीरे-धीरे घटाया जाए, तो :
- प्रेरक और संधारित्र दोनों के प्रतिघात घटते हैं।
 - प्रेरक का प्रतिघात घटता है और संधारित्र का प्रतिघात बढ़ता है।
 - प्रेरक और संधारित्र दोनों के प्रतिघात बढ़ते हैं।
 - प्रेरक का प्रतिघात बढ़ता है और संधारित्र का प्रतिघात घटता है।
7. जल शोधकों में कीटाणुओं को मारने में उपयोग किए जाने वाले विद्युत-चुम्बकीय विकिरणों को कहते हैं :
- अवरक्त तरंगें
 - X-किरणें
 - गामा किरणें
 - पराबैंगनी किरणें
8. प्रकाश के तरंग चित्रण में, प्रकाश की तीव्रता I और तरंग के आयाम A के बीच के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जाता है :
- $I \propto \sqrt{A}$
 - $I \propto A$
 - $I \propto A^2$
 - $I \propto \frac{1}{A^2}$
9. किसी एकल-झिरी विवर्तन प्रयोग में, झिरी की चौड़ाई आधी कर दी जाती है। विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई हो जाएगी :
- आधी
 - दुगुनी
 - चार गुनी
 - एक-चौथाई



6. An inductor, a capacitor and a resistor are connected in series across an ac source of voltage. If the frequency of the source is decreased gradually, the reactance of :
- (a) both the inductor and the capacitor decreases.
 - (b) inductor decreases and the capacitor increases.
 - (c) both the inductor and the capacitor increases.
 - (d) inductor increases and the capacitor decreases.
7. The electromagnetic radiations used to kill germs in water purifiers are called :
- (a) Infrared waves
 - (b) X-rays
 - (c) Gamma rays
 - (d) Ultraviolet rays
8. In the wave picture of light, the intensity I of light is related to the amplitude A of the wave as :
- (a) $I \propto \sqrt{A}$
 - (b) $I \propto A$
 - (c) $I \propto A^2$
 - (d) $I \propto \frac{1}{A^2}$
9. In a single-slit diffraction experiment, the width of the slit is halved. The width of the central maximum, in the diffraction pattern, will become :
- (a) half
 - (b) twice
 - (c) four times
 - (d) one-fourth



10. किसी धातु के लिए निरोधी विभव (y -अक्ष पर) तथा आपतित विकिरणों की आवृत्ति (x -अक्ष पर) के बीच ग्राफ आलेखित किया गया है। ग्राफ पर सरल रेखा की प्रवणता और इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का गुणनफल होगा :

- (a) h
- (b) $\frac{h}{c}$
- (c) $\frac{2h}{c}$
- (d) $\frac{h}{2c}$

11. कार्य फलन 2.14 eV की किसी धातु पर आवृत्ति $6.4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ का प्रकाश आपतन कर रहा है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी लगभग :

- (a) 0.25 eV
- (b) 0.51 eV
- (c) 1.02 eV
- (d) 0.10 eV

12. बोर के मॉडल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम आवृत्ति और निम्नतम आवृत्ति का अनुपात होता है :

- (a) $\frac{11}{9}$
- (b) $\frac{9}{5}$
- (c) $\frac{11}{7}$
- (d) $\frac{16}{7}$



10. A graph is plotted between the stopping potential (on y-axis) and the frequency of incident radiation (on x-axis) for a metal. The product of the slope of the straight line obtained and the magnitude of charge on an electron is equal to :
- (a) h
 - (b) $\frac{h}{c}$
 - (c) $\frac{2h}{c}$
 - (d) $\frac{h}{2c}$
11. Light of frequency 6.4×10^{14} Hz is incident on a metal of work function 2.14 eV. The maximum kinetic energy of the emitted electrons is about :
- (a) 0.25 eV
 - (b) 0.51 eV
 - (c) 1.02 eV
 - (d) 0.10 eV
12. The ratio of maximum frequency and minimum frequency of light emitted in Balmer series of hydrogen spectrum, in Bohr's model is :
- (a) $\frac{11}{9}$
 - (b) $\frac{9}{5}$
 - (c) $\frac{11}{7}$
 - (d) $\frac{16}{7}$



13. किसी नैज अर्धचालक में किसी निश्चित ताप पर इलेक्ट्रॉनों और विवरों की सांद्रता $1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ है। जब इसे त्रिसंयोजक अपमिश्रक से मादित किया जाता है, तो विवर सांद्रता बढ़कर $4.5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$ हो जाती है। मादित अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता (n_e) होगी :

- (a) $3 \times 10^6 \text{ m}^{-3}$
- (b) $5 \times 10^7 \text{ m}^{-3}$
- (c) $5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$
- (d) $6.75 \times 10^{38} \text{ m}^{-3}$

14. यदि कोई p-n संधि डायोड पश्चदिशिक बायसित है, तो :

- (a) रोधिका विभव घट जाता है।
- (b) रोधिका विभव प्रभावित नहीं होता है।
- (c) रोधिका विभव बढ़ जाता है।
- (d) धारा मुख्यतः बहुसंख्यक वाहकों के कारण होती है।

15. किसी वोल्टता सिग्नल का किसी चक्र के लिए वर्णन इस प्रकार किया गया है :

$$v = V_0 \quad 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \text{ के लिए}$$
$$= 0 \quad \frac{T}{2} \leq t \leq T \text{ के लिए}$$

इसका rms मान है :

- (a) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$
- (b) V_0
- (c) $\frac{V_0}{2}$
- (d) $\sqrt{2} V_0$



13. At a certain temperature in an intrinsic semiconductor, the electrons and holes concentration is $1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$. When it is doped with a trivalent dopant, hole concentration increases to $4.5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$. In the doped semiconductor, the concentration of electrons (n_e) will be :
- (a) $3 \times 10^6 \text{ m}^{-3}$
 - (b) $5 \times 10^7 \text{ m}^{-3}$
 - (c) $5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$
 - (d) $6.75 \times 10^{38} \text{ m}^{-3}$

14. If a p-n junction diode is reverse biased,
- (a) the potential barrier is lowered.
 - (b) the potential barrier remains unaffected.
 - (c) the potential barrier is raised.
 - (d) the current is mainly due to majority carriers.

15. A voltage signal is described by :

$$v = V_0 \quad \text{for } 0 \leq t \leq \frac{T}{2}$$
$$= 0 \quad \text{for } \frac{T}{2} \leq t \leq T$$

for a cycle. Its rms value is :

- (a) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$
- (b) V_0
- (c) $\frac{V_0}{2}$
- (d) $\sqrt{2} V_0$



प्रश्न संख्या 16 से 18 अभिकथन (A) और कारण (R) प्रकार के प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।

- (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) ग़लत है।
- (d) अभिकथन (A) ग़लत है और कारण (R) भी ग़लत है।

16. अभिकथन (A) : किसी सेल का आन्तरिक प्रतिरोध नियत रहता है।

कारण (R) : उपयोग करते समय सेल के विद्युत-अपघट्य की आयनी सांद्रता समान रहती है।

17. अभिकथन (A) : जब किसी वृत्ताकार पाश, जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, की त्रिज्या दुगुनी की जाती है, तो उसका चुम्बकीय आघूर्ण चार गुना हो जाता है।

कारण (R) : किसी वृत्ताकार पाश, जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, का चुम्बकीय आघूर्ण उस पाश के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है।

18. अभिकथन (A) : नाभिक ${}^4_3\text{Y}$ की अपेक्षा नाभिक ${}^7_3\text{X}$ अधिक स्थायी है।

कारण (R) : ${}^7_3\text{X}$ में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है।

खण्ड ख

19. लम्बाई l का कोई तार एक फेरे के वृत्ताकार पाश A के रूप में है। इस पाश को तीन फेरे वाले पाश B की आकृति में परिवर्तित कर दिया गया है। समान धारा प्रवाहित करने पर पाश A और पाश B के केन्द्रों पर चुम्बकीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

2

20. 'विस्थापन धारा' से क्या तात्पर्य है? संक्षेप में व्याख्या कीजिए कि यह धारा चालन धारा से किस प्रकार भिन्न है।

2



Questions number **16 to 18** are Assertion (A) and Reason (R) type questions. Two statements are given — one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (d) Assertion (A) is false and Reason (R) is also false.

16. Assertion (A) : The internal resistance of a cell is constant.

Reason (R) : Ionic concentration of the electrolyte remains same during use of a cell.

17. Assertion (A) : When radius of a circular loop carrying a steady current is doubled, its magnetic moment becomes four times.

Reason (R): The magnetic moment of a circular loop carrying a steady current is proportional to the area of the loop.

18. Assertion (A): The nucleus ${}^7_3\text{X}$ is more stable than the nucleus ${}^4_3\text{Y}$.

Reason (R): ${}^7_3\text{X}$ contains more number of protons.

SECTION B

19. A wire of length l is in the form of a circular loop A of one turn. This loop is reshaped into loop B of three turns. Find the ratio of the magnetic fields at the centres of loop A and loop B for the same current through them. 2

20. What is meant by the term 'displacement current' ? Briefly explain how this current is different from a conduction current. 2



21. (क) हाइगेन्स सिद्धान्त लिखिए । हाइगेन्स ने पश्च तरंग की अनुपस्थिति की व्याख्या किस प्रकार की ? 2

अथवा

- (ख) हाइगेन्स सिद्धान्त का उपयोग करके (i) अवतल दर्पण, तथा (ii) उत्तल लेंस द्वारा किसी समतल तरंग का परावर्तन/अपवर्तन दर्शाइए । 2

22. दो माध्यमों A और B के अपवर्तनांक क्रमशः 2 और $\sqrt{2}$ हैं । इन दोनों के अन्तरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण क्या है ? 2

23. (क) द्रव्यमान संख्या A को फलन मानकर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन के विचरण को दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए । भारी नाभिकों ($A > 170$) के लिए द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन घटती है । व्याख्या कीजिए । 2

अथवा

- (ख) बोर अभिगृहीतों का उपयोग करते हुए, हाइड्रोजन परमाणु में n वीं स्थाई कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए । 2

24. किसी p-n संधि डायोड में हासी स्तर के बनने में विसरण धारा और अपवाह धारा की भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए । 2

25. किसी p-n संधि के उस गुण की व्याख्या कीजिए जो इसे प्रत्यावर्ती वोल्टताओं के दिष्टकरण के लिए उपयुक्त बनाता है । पूर्ण-तरंग दिष्टकारी और अर्ध-तरंग दिष्टकारी के बीच विभेदन कीजिए । 2

खण्ड ग

26. लम्बाई l और एकसमान अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल A के किसी चालक के सिरों पर कोई विभवान्तर V अनुप्रयुक्त किया गया है । (अन्य कारकों को नियत रखते हुए) यदि (a) V को दुगुना और (b) l को आधा कर दिया जाए, तो (i) विद्युत क्षेत्र E, (ii) अपवाह वेग v_d , और (iii) धारा घनत्व j किस प्रकार प्रभावित होंगे ? 3

27. कुण्डलियों के युगल के 'अन्योन्य प्रेरकत्व' से क्या तात्पर्य है ? दो लम्बी समाक्ष परिनालिकाओं, जिनमें प्रत्येक की लम्बाई l है परन्तु उनमें फेरों की संख्या N_1 और N_2 तथा त्रिज्या r_1 और r_2 ($r_2 > r_1$) भिन्न हैं, के अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए । 3



21. (a) State Huygens' principle. How did Huygens explain the absence of the backwave ? 2

OR

- (b) Use Huygens' principle to show reflection/refraction of a plane wave by (i) concave mirror, and (ii) a convex lens. 2
22. The refractive indices of two media A and B are 2 and $\sqrt{2}$ respectively. What is the critical angle for their interface ? 2

23. (a) Draw a graph showing the variation of binding energy per nucleon as a function of mass number A. The binding energy per nucleon for heavy nuclei ($A > 170$) decreases with the increase in mass number. Explain. 2

OR

- (b) Using Bohr's postulates, obtain the expression for radius of n^{th} stable orbit in a hydrogen atom. 2
24. Explain the roles of diffusion current and drift current in the formation of the depletion layer in a p-n junction diode. 2
25. Explain the property of a p-n junction which makes it suitable for rectifying alternating voltages. Differentiate between a half-wave and a full-wave rectifier. 2

SECTION C

26. A potential difference V is applied across a conductor of length l and uniform cross-section area A . How will the (i) electric field E , (ii) drift velocity v_d , and (iii) current density j be affected when (a) V is doubled and (b) l is halved (keeping other factors constant) ? 3
27. What is meant by the term 'mutual inductance' of a pair of coils ? Obtain an expression for the mutual inductance of two long coaxial solenoids, each of length l but having different number of turns N_1 and N_2 and radii r_1 and r_2 ($r_2 > r_1$). 3



28. (क) किसी आदर्श संधारित्र के सिरोँ से कोई ac स्रोत $v = v_m \sin \omega t$ संयोजित है ।
(i) परिपथ में प्रवाहित धारा, और (ii) संधारित्र के प्रतिघात के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए । धारा i और ωt के बीच ग्राफ आलेखित कीजिए । 3

अथवा

- (ख) यदि किसी परिपथ में किसी ac वोल्टता स्रोत के सिरोँ से श्रेणी में कोई प्रेरक L , संधारित्र C और प्रतिरोधक R संयोजित हैं, तो परिपथ में औसत उपभुक्त शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए । (i) परिशुद्ध प्रेरणिक परिपथ, और (ii) परिशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ के लिए शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए । 3

29. कोई प्रोटॉन जिसकी ऊर्जा $\left(\frac{500}{1.673}\right)$ eV है, से संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए । समान ऊर्जा वाले किसी ऐल्फा कण के लिए यह तरंगदैर्घ्य किस प्रकार प्रभावित होती है ? 3

30. (क) (i) सिद्ध कीजिए कि सभी नाभिकों के लिए नाभिकीय घनत्व समान होता है ।
(ii) किसी न्यूक्लियोनों के युगल के पृथकन को फलन मानकर उस युगल की स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ खींचिए । इस ग्राफ से दो निष्कर्ष निकालिए । 3

अथवा

- (ख) (i) गाइगर-मार्सडेन प्रयोग में प्रकीर्णन कोण (θ) को फलन मानकर संसूचित प्रकीर्णित कणों की संख्या (N) के विचरण को दर्शाने के लिए आलेख (ग्राफ) खींचिए ।
(ii) इस आलेख से निकाले जाने वाले दो निष्कर्षों की संक्षेप में चर्चा कीजिए और लिखिए कि ये किस प्रकार परमाणु में नाभिक की खोज की ओर ले जाते हैं । 3



- 28.** (a) An ac source $v = v_m \sin \omega t$ is connected across an ideal capacitor. Derive the expression for the (i) current flowing in the circuit, and (ii) reactance of the capacitor. Plot a graph of current i versus ωt . 3

OR

- (b) A series combination of an inductor L , a capacitor C and a resistor R is connected across an ac source of voltage in a circuit. Obtain an expression for the average power consumed by the circuit. Find power factor for (i) purely inductive circuit, and (ii) purely resistive circuit. 3

- 29.** Calculate the wavelength of de Broglie waves associated with a proton having $\left(\frac{500}{1.673}\right)$ eV energy. How will the wavelength be affected for an alpha particle having the same energy ? 3

- 30.** (a) (i) Prove that the nuclear density is same for all nuclei.
(ii) Draw a plot of potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation. Draw two inferences from this plot. 3

OR


- (b) (i) Draw a graph to show the variation of the number of scattered particles detected (N) in Geiger-Marsden experiment as a function of scattering angle (θ).
(ii) Discuss briefly two conclusions that can be drawn from this graph and how they lead to the discovery of nucleus in an atom. 3



खण्ड घ

31. (क) (i) विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए ।
- (ii) गाउस नियम का उपयोग करके किसी एकसमान रूप से आवेशित अनन्त समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए ।
- (iii) आरेख में दर्शाए अनुसार, भुजा L का कोई घन आकाश (space) में स्थित है । इस प्रदेश में कोई विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = (Ax + B) \hat{i} \frac{N}{C}$ विद्यमान है । इस घन के भीतर बन्द नेट आवेश ज्ञात कीजिए ।

5



अथवा


- (ख) (i) किसी बिन्दु पर विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए ।
- (ii) दो संधारित्र श्रेणी में संयोजित हैं । इस संयोजन की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए ।
- (iii) दो बिन्दु आवेश + q और - q, x-y तल में क्रमशः बिन्दुओं (3a, 0) और (0, 4a) पर अवस्थित हैं । मूल-बिन्दु पर कोई तीसरा आवेश Q रखा है । q और a के पदों में Q का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे निकाय की स्थिर-वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाए ।

5



SECTION D

31. (a) (i) Define electric flux and write its SI unit.
- (ii) Use Gauss' law to obtain the expression for the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet.
- (iii) A cube of side L is kept in space, as shown in the figure. An electric field $\vec{E} = (Ax + B) \hat{i} \frac{N}{C}$ exists in the region. Find the net charge enclosed by the cube. 5



OR

- (b) (i) Define electric potential at a point and write its SI unit.
- (ii) Two capacitors are connected in series. Derive an expression of the equivalent capacitance of the combination.
- (iii) Two point charges $+q$ and $-q$ are located at points $(3a, 0)$ and $(0, 4a)$ respectively in x - y plane. A third charge Q is kept at the origin. Find the value of Q , in terms of q and a , so that the electrostatic potential energy of the system is zero. 5



32. (क) (i) किसी चल कुण्डली गैल्वेनोमीटर का सिद्धान्त लिखिए और इसकी क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए । किसी गैल्वेनोमीटर का, उसके इसी रूप में, किसी परिपथ में धारा मापने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है । क्यों ?
- (ii) किसी चल कुण्डली गैल्वेनोमीटर में चुम्बकीय क्षेत्र अरीय क्यों बनाते हैं ? इसे किस प्रकार बनाया जाता है ?

5

अथवा

- (ख) (i) किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए ।
- (ii) प्रतिचुम्बकीय पदार्थ और अनुचुम्बकीय पदार्थ के बीच विभेदन करने वाले कोई दो बिन्दु लिखिए ।

5

33. (क) (i) वक्रता त्रिज्या 'R' के किसी अवतल दर्पण के सामने दूरी 'u' पर स्थित किसी बिम्ब के वास्तविक प्रतिबिम्ब के बनने को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए । इस प्रकार, u और R के पदों में प्रतिबिम्ब दूरी 'v' के लिए संबंध प्राप्त कीजिए ।
- (ii) किसी 1 m फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 1.8 m लम्बाई का कोई व्यक्ति लेंस से 5 m की दूरी पर खड़ा है । बनने वाले प्रतिबिम्ब की स्थिति और ऊँचाई ज्ञात कीजिए ।

5

अथवा

- (ख) (i) किसी त्रिभुजाकार काँच के प्रिज़्म से गुज़रने वाली किसी प्रकाश किरण के अपवर्तन को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए । इस प्रकार, अपवर्तनांक (μ) के लिए प्रिज़्म कोण (A) और न्यूनतम विचलन कोण (δ_m) के पदों में संबंध प्राप्त कीजिए ।
- (ii) किसी अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ 20 cm हैं । यदि लेंस की क्षमता $-5.0 D$ है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए ।

5



32. (a) (i) Write the principle and explain the working of a moving coil galvanometer. A galvanometer as such cannot be used to measure the current in a circuit. Why ?

(ii) Why is the magnetic field made radial in a moving coil galvanometer ? How is it achieved ? 5

OR

(b) (i) Derive an expression for magnetic field on the axis of a current carrying circular loop.

(ii) Write any two points of difference between a diamagnetic and a paramagnetic substance. 5

33. (a) (i) Draw a ray diagram showing the formation of a real image of an object placed at a distance 'u' in front of a concave mirror of radius of curvature 'R'. Hence, obtain the relation for the image distance 'v' in terms of u and R.

(ii) A 1.8 m tall person stands in front of a convex lens of focal length 1 m, at a distance of 5 m. Find the position and height of the image formed. 5

OR


(b) (i) Draw a ray diagram showing refraction of a ray of light through a triangular glass prism. Hence, obtain the relation for the refractive index (μ) in terms of angle of prism (A) and angle of minimum deviation (δ_m).

(ii) The radii of curvature of the two surfaces of a concave lens are 20 cm each. Find the refractive index of the material of the lens if its power is -5.0 D. 5



खण्ड ड

34. आरेख में दर्शाए अनुसार दो पट्टिकाओं के बीच के प्रदेश में कोई इलेक्ट्रॉन पुन्ज क्षैतिजतः 3×10^7 m/s के वेग से गतिमान है। इन पट्टिकाओं के बीच कोई उपयुक्त विभवान्तर अनुप्रयुक्त किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन पुन्ज निचली पट्टिका के किनारे से ठीक-ठीक टकराए।



उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) किनारे से टकराने में कोई इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा ? 1
(ख) इलेक्ट्रॉन के पथ की आकृति क्या है और क्यों ? 1
(ग) अनुप्रयुक्त विभवान्तर ज्ञात कीजिए। 2

अथवा

- (ग) पट्टिकाओं के बीच के प्रदेश में उस चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को ज्ञात कीजिए जिसे इलेक्ट्रॉन पुन्ज को बिना विक्षेपित हुए सीधे जाने के लिए उत्पन्न किया जाना चाहिए। 2

35. किसी वस्तु के कोनों, जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के तुल्य हो, पर प्रकाश तरंग का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन वास्तव में किरण प्रकाशिकी की सीमाएँ परिभाषित करता है। प्रकाशिक यंत्रों के लिए सीमाएँ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं। किसी एकल-झिरी के विवर्तन पैटर्न के प्रेक्षण के लिए कोई प्रायोगिक व्यवस्था बनायी जाती है।

उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) यदि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में वृद्धि कर दी जाए, तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई किस प्रकार प्रभावित होगी ? 1
(ख) प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त करने की क्या शर्त है ? 1
(ग) व्यतिकरण और विवर्तन पैटर्नों के बीच दो अन्तर लिखिए। 2


अथवा

- (ग) दो विद्यार्थी एक 10 m ऊँची कक्ष विभाजक दीवार द्वारा 7 m के अंतर पर हैं। यदि ध्वनि और प्रकाश दोनों प्रकार की तरंगें वस्तु के किनारों पर मुड़ सकती हैं, तो फिर भी वे विद्यार्थी एक-दूसरे को देख नहीं पाते यद्यपि वे आपस में आसानी से वार्तालाप किस प्रकार कर पाते हैं ? 2



SECTION E

34. A beam of electrons moving horizontally with a velocity of 3×10^7 m/s enters a region between two plates as shown in the figure. A suitable potential difference is applied across the plates such that the electron beam just strikes the edge of the lower plate.



Answer the following questions based on the above :

- (a) How long does an electron take to strike the edge ? 1
- (b) What is the shape of the path followed by the electron and why ? 1
- (c) Find the potential difference applied. 2

OR

- (c) Find the magnitude and direction of the magnetic field which should be created in the space between the plates so that the electron beam goes straight undeviated. 2

35. Diffraction of light is bending of light around the corners of an object whose size is comparable with the wavelength of light. Diffraction actually defines the limits of ray optics. This limit for optical instruments is set by the wavelength of light. An experimental arrangement is set up to observe the diffraction pattern due to a single slit.

Answer the following questions based on the above :

- (a) How will the width of central maximum be affected if the wavelength of light is increased ? 1
- (b) Under what condition is the first minimum obtained ? 1
- (c) Write two points of difference between interference and diffraction patterns. 2

OR

- (c) Two students are separated by a 7 m partition wall in a room 10 m high. If both light and sound waves can bend around obstacles, how is it that the students are unable to see each other even though they can converse easily ? 2

Series **GEFH1/3**



SET ~ 2

रोल नं.

Roll No.

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code

55/3/2

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book. *



भौतिक विज्ञान (सैद्धान्तिक) PHYSICS (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70

नोट / NOTE :

- (i) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **23** हैं ।
Please check that this question paper contains **23** printed pages.
- (ii) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **35** प्रश्न हैं ।
Please check that this question paper contains **35** questions.
- (iv) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- (v) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 19 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के दो-दो अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 30 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के पाँच-पाँच अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 34 तथा 35 केस-आधारित चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 2 प्रश्नों में, खण्ड घ के 3 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

भौतिक नियतांकों के निम्नलिखित मान, आवश्यकता अनुसार उपयोग करें:

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (} m_e \text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{न्यूट्रॉन का द्रव्यमान} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{प्रोटॉन का द्रव्यमान} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{आवोगाद्रो संख्या} = 6.023 \times 10^{23} \text{ प्रति ग्राम मोल (per gram mole)}$$

$$\text{बोल्ट्ज़मान नियतांक} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **35** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.
- (iii) In **Section A** – Questions no. **1** to **18** are Multiple Choice (MCQ) type questions, carrying **1** mark each.
- (iv) In **Section B** – Questions no. **19** to **25** are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In **Section C** – Questions no. **26** to **30** are Short Answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In **Section D** – Questions no. **31** to **33** are Long Answer (LA) type questions carrying **5** marks each.
- (vii) In **Section E** – Questions no. **34** and **35** are case-based questions carrying **4** marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 2 questions in Section C, 3 questions in Section D and 2 questions in Section E.
- (ix) Use of calculators is **not** allowed.

Use the following values of physical constants, if required :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{Mass of electron (} m_e \text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of neutron} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of proton} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Avogadro's number} = 6.023 \times 10^{23} \text{ per gram mole}$$

$$\text{Boltzmann constant} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



खण्ड क

1. किसी वोल्टता सिग्नल का किसी चक्र के लिए वर्णन इस प्रकार किया गया है :

$$v = V_0 \quad 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \text{ के लिए}$$

$$= 0 \quad \frac{T}{2} \leq t \leq T \text{ के लिए}$$

इसका rms मान है :

(a) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$

(b) V_0

(c) $\frac{V_0}{2}$

(d) $\sqrt{2} V_0$

2. बोर के मॉडल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम आवृत्ति और निम्नतम आवृत्ति का अनुपात होता है :

(a) $\frac{11}{9}$

(b) $\frac{9}{5}$

(c) $\frac{11}{7}$

(d) $\frac{16}{7}$

3. किसी नैज अर्धचालक में किसी निश्चित ताप पर इलेक्ट्रॉनों और विवरों की सांद्रता $1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ है। जब इसे त्रिसंयोजक अपमिश्रक से मादित किया जाता है, तो विवर सांद्रता बढ़कर $4.5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$ हो जाती है। मादित अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता (n_e) होगी :

(a) $3 \times 10^6 \text{ m}^{-3}$

(b) $5 \times 10^7 \text{ m}^{-3}$

(c) $5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$

(d) $6.75 \times 10^{38} \text{ m}^{-3}$



SECTION A

1. A voltage signal is described by :

$$v = V_0 \quad \text{for } 0 \leq t \leq \frac{T}{2}$$
$$= 0 \quad \text{for } \frac{T}{2} \leq t \leq T$$

for a cycle. Its rms value is :

- (a) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$
- (b) V_0
- (c) $\frac{V_0}{2}$
- (d) $\sqrt{2} V_0$
2. The ratio of maximum frequency and minimum frequency of light emitted in Balmer series of hydrogen spectrum, in Bohr's model is :

- (a) $\frac{11}{9}$
- (b) $\frac{9}{5}$
- (c) $\frac{11}{7}$
- (d) $\frac{16}{7}$

3. At a certain temperature in an intrinsic semiconductor, the electrons and holes concentration is $1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$. When it is doped with a trivalent dopant, hole concentration increases to $4.5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$. In the doped semiconductor, the concentration of electrons (n_e) will be :

- (a) $3 \times 10^6 \text{ m}^{-3}$
- (b) $5 \times 10^7 \text{ m}^{-3}$
- (c) $5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$
- (d) $6.75 \times 10^{38} \text{ m}^{-3}$



4. कोई अनन्त लम्बाई का एकसमान आवेशित तार 1.0 cm की दूरी पर $18 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तार पर रैखिक आवेश घनत्व है :
- (a) $1.12 \times 10^{-14} \text{ Cm}^{-1}$ (b) $3.08 \times 10^{-15} \text{ Cm}^{-1}$
(c) $1.0 \times 10^{-9} \text{ Cm}^{-1}$ (d) $1.0 \times 10^{-7} \text{ Cm}^{-1}$
5. किसी नैज अर्धचालक की 0 K पर प्रतिरोधकता होती है :
- (a) 0°C पर प्रतिरोधकता के समान (b) 300 K पर प्रतिरोधकता के समान
(c) शून्य (d) अनन्त
6. कार्य फलन 2.14 eV की किसी धातु पर आवृत्ति $6.4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ का प्रकाश आपतन कर रहा है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी लगभग :
- (a) 0.25 eV
(b) 0.51 eV
(c) 1.02 eV
(d) 0.10 eV
7. प्रकाश-विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में, आवृत्ति ν को समान रखते हुए आपतित विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि की जाती है। उत्सर्जित प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की संख्या :
- (a) बढ़ जाएगी (b) घट जाएगी
(c) समान रहेगी (d) आवृत्ति पर निर्भर करेगी
8. आवेश वाहकों की गतिशीलता का SI मात्रक है :
- (a) $\Omega \text{ s}^{-1}$ (b) $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$
(c) $\text{m s}^{-1} \text{ V}^{-1}$ (d) $\Omega \text{ m}$
9. कोई प्रेरक, कोई संधारित्र और कोई प्रतिरोधक श्रेणी में किसी ac वोल्टता स्रोत के सिरों से संयोजित हैं। यदि स्रोत की आवृत्ति को धीरे-धीरे घटाया जाए, तो :
- (a) प्रेरक और संधारित्र दोनों के प्रतिघात घटते हैं।
(b) प्रेरक का प्रतिघात घटता है और संधारित्र का प्रतिघात बढ़ता है।
(c) प्रेरक और संधारित्र दोनों के प्रतिघात बढ़ते हैं।
(d) प्रेरक का प्रतिघात बढ़ता है और संधारित्र का प्रतिघात घटता है।



4. An infinitely long uniformly charged wire produces an electric field of $18 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ at a distance of 1.0 cm. The linear charge density on the wire is :
- (a) $1.12 \times 10^{-14} \text{ Cm}^{-1}$ (b) $3.08 \times 10^{-15} \text{ Cm}^{-1}$
(c) $1.0 \times 10^{-9} \text{ Cm}^{-1}$ (d) $1.0 \times 10^{-7} \text{ Cm}^{-1}$
5. At 0 K, the resistivity of an intrinsic semiconductor is :
- (a) same as that at 0°C (b) same as that at 300 K
(c) zero (d) infinite
6. Light of frequency $6.4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ is incident on a metal of work function 2.14 eV. The maximum kinetic energy of the emitted electrons is about :
- (a) 0.25 eV
(b) 0.51 eV
(c) 1.02 eV
(d) 0.10 eV
7. In an experiment on photoelectric effect, the intensity of incident radiation is increased, keeping the frequency ν the same. The number of photoelectrons emitted will :
- (a) increase (b) decrease
(c) remain same (d) depend on frequency
8. The SI unit of mobility of charge carriers is :
- (a) $\Omega \text{ s}^{-1}$ (b) $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$
(c) $\text{m s}^{-1} \text{ V}^{-1}$ (d) $\Omega \text{ m}$
9. An inductor, a capacitor and a resistor are connected in series across an ac source of voltage. If the frequency of the source is decreased gradually, the reactance of :
- (a) both the inductor and the capacitor decreases.
(b) inductor decreases and the capacitor increases.
(c) both the inductor and the capacitor increases.
(d) inductor increases and the capacitor decreases.




10. किसी चल कुण्डली गैल्वैनोमीटर में, कुण्डली पर कार्यरत विक्षेपक बल-आघूर्ण τ कुण्डली में प्रवाहित धारा I से किस प्रकार संबंधित होता है ?
- (a) $\tau \propto I^3$ (b) $\tau \propto I^2$
(c) $\tau \propto I$ (d) $\tau \propto \sqrt{I}$
11. प्रकाश के तरंग चित्रण में, प्रकाश की तीव्रता I और तरंग के आयाम A के बीच के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जाता है :
- (a) $I \propto \sqrt{A}$
(b) $I \propto A$
(c) $I \propto A^2$
(d) $I \propto \frac{1}{A^2}$
12. कुछ मीटर कोटि की तरंगदैर्घ्य की विद्युत-चुम्बकीय तरंगें सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसके द्वारा उत्पन्न और संसूचित की गई थीं ?
- (a) जे.सी. मैक्सवेल (b) जे.सी. बोस
(c) एच.आर. हर्ट्ज़ (d) जी. मार्कोनी
13. किसी सेल का वि.वा. बल (emf) और आन्तरिक प्रतिरोध क्रमशः E और r हैं । इसे किसी $R = 2r$ के बाह्य प्रतिरोध से संयोजित किया गया है । इस सेल के टर्मिनलों के बीच विभव पात क्या होगा ?
- (a) $\frac{E}{4}$ (b) $\frac{E}{2}$
(c) $\frac{2}{3}E$ (d) $\frac{E}{3}$
14. किसी एकल-झिरी विवर्तन प्रयोग में, झिरी की चौड़ाई आधी कर दी जाती है । विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई हो जाएगी :
- (a) आधी
(b) दुगुनी
(c) चार गुनी
(d) एक-चौथाई




10. In a moving coil galvanometer, the deflecting torque τ acting on the coil is related to the current I flowing through it as :
- (a) $\tau \propto I^3$ (b) $\tau \propto I^2$
(c) $\tau \propto I$ (d) $\tau \propto \sqrt{I}$
11. In the wave picture of light, the intensity I of light is related to the amplitude A of the wave as :
- (a) $I \propto \sqrt{A}$
(b) $I \propto A$
(c) $I \propto A^2$
(d) $I \propto \frac{1}{A^2}$
12. Electromagnetic waves of wavelength of the order of a few meters were first produced and detected in the laboratory by :
- (a) J.C. Maxwell (b) J.C. Bose
(c) H.R. Hertz (d) G. Marconi
13. The emf and internal resistance of a cell are E and r respectively. It is connected across an external resistance $R = 2r$. The potential drop across the terminals of the cell will be :
- (a) $\frac{E}{4}$ (b) $\frac{E}{2}$
(c) $\frac{2}{3}E$ (d) $\frac{E}{3}$
14. In a single-slit diffraction experiment, the width of the slit is halved. The width of the central maximum, in the diffraction pattern, will become :
- (a) half
(b) twice
(c) four times
(d) one-fourth




15. निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राफ किसी त्रिज्या 'a' के अनन्त लम्बाई के धारावाही सीधे तार के केन्द्र से दूरी 'r' को फलन मानकर उसके बाहर के चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण के विचरण का सही निरूपण करता है ?




(a)



(b)



(c)




(d)

प्रश्न संख्या 16 से 18 अभिकथन (A) और कारण (R) प्रकार के प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।


- (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) ग़लत है।
- (d) अभिकथन (A) ग़लत है और कारण (R) भी ग़लत है।
16. अभिकथन (A) : जब किसी वृत्ताकार पाश, जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, की त्रिज्या दुगुनी की जाती है, तो उसका चुम्बकीय आघूर्ण चार गुना हो जाता है।
- कारण (R) : किसी वृत्ताकार पाश, जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, का चुम्बकीय आघूर्ण उस पाश के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है।
17. अभिकथन (A) : नाभिक ${}^4_3\text{Y}$ की अपेक्षा नाभिक ${}^7_3\text{X}$ अधिक स्थायी है।
- कारण (R) : ${}^7_3\text{X}$ में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है।
18. अभिकथन (A) : किसी सेल का आन्तरिक प्रतिरोध नियत रहता है।
- कारण (R) : उपयोग करते समय सेल के विद्युत-अपघट्य की आयनी सांद्रता समान रहती है।




15. Which of the following graphs correctly represents the variation of the magnitude of the magnetic field outside a straight infinite current carrying wire of radius 'a', as a function of distance 'r' from the centre of the wire ?




(a)



(b)



(c)



(d)

Questions number 16 to 18 are Assertion (A) and Reason (R) type questions. Two statements are given — one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (d) Assertion (A) is false and Reason (R) is also false.
16. *Assertion (A)* : When radius of a circular loop carrying a steady current is doubled, its magnetic moment becomes four times.
Reason (R): The magnetic moment of a circular loop carrying a steady current is proportional to the area of the loop.
17. *Assertion (A)*: The nucleus ${}^7_3\text{X}$ is more stable than the nucleus ${}^4_3\text{Y}$.
Reason (R): ${}^7_3\text{X}$ contains more number of protons.
18. *Assertion (A)* : The internal resistance of a cell is constant.
Reason (R) : Ionic concentration of the electrolyte remains same during use of a cell.



खण्ड ख

19. किसी p-n संधि डायोड के हासी स्तर की चौड़ाई किस प्रकार प्रभावित होती है जब यह (i) अग्रदिशिक बायसित, और (ii) पश्चदिशिक बायसित होता है ? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए । 2
20. किसी p-n संधि के उस गुण की व्याख्या कीजिए जो इसे प्रत्यावर्ती वोल्टताओं के दिष्टकरण के लिए उपयुक्त बनाता है । पूर्ण-तरंग दिष्टकारी और अर्ध-तरंग दिष्टकारी के बीच विभेदन कीजिए । 2
21. (क) द्रव्यमान संख्या A को फलन मानकर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन के विचरण को दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए । भारी नाभिकों ($A > 170$) के लिए द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन घटती है । व्याख्या कीजिए । 2

अथवा

- (ख) बोर अभिगृहीतों का उपयोग करते हुए, हाइड्रोजन परमाणु में n वीं स्थाई कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए । 2
22. 'विस्थापन धारा' से क्या तात्पर्य है ? संक्षेप में व्याख्या कीजिए कि यह धारा चालन धारा से किस प्रकार भिन्न है । 2
23. समान लम्बाई के दो तारों में से एक को वर्गाकार पाश और दूसरे को वृत्ताकार पाश की आकृति में मोड़ा गया है । दोनों पाशों को किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में निलंबित किया गया है । यह दर्शाइए कि समान धारा प्रवाहित करने पर, वृत्ताकार पाश अधिक बल-आघूर्ण का अनुभव करेगा । 2
24. (क) हाइगेन्स सिद्धान्त लिखिए । हाइगेन्स ने पश्च तरंग की अनुपस्थिति की व्याख्या किस प्रकार की ? 2

अथवा

- (ख) हाइगेन्स सिद्धान्त का उपयोग करके (i) अवतल दर्पण, तथा (ii) उत्तल लेंस द्वारा किसी समतल तरंग का परावर्तन/अपवर्तन दर्शाइए । 2
25. दो माध्यमों A और B के अपवर्तनांक क्रमशः 2 और $\sqrt{2}$ हैं । इन दोनों के अन्तरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण क्या है ? 2



SECTION B

19. How is the width of depletion layer of a p-n junction diode affected when it is (i) forward biased, and (ii) reverse biased ? Justify your answers. 2
20. Explain the property of a p-n junction which makes it suitable for rectifying alternating voltages. Differentiate between a half-wave and a full-wave rectifier. 2
21. (a) Draw a graph showing the variation of binding energy per nucleon as a function of mass number A. The binding energy per nucleon for heavy nuclei ($A > 170$) decreases with the increase in mass number. Explain. 2

OR

- (b) Using Bohr's postulates, obtain the expression for radius of n^{th} stable orbit in a hydrogen atom. 2
22. What is meant by the term 'displacement current' ? Briefly explain how this current is different from a conduction current. 2
23. Two wires of equal lengths are shaped in the form of a square loop and a circular loop. Both loops are suspended in a uniform magnetic field. Prove that for the same current, the circular loop will experience larger torque. 2
24. (a) State Huygens' principle. How did Huygens explain the absence of the backwave ? 2

OR

- (b) Use Huygens' principle to show reflection/refraction of a plane wave by (i) concave mirror, and (ii) a convex lens. 2
25. The refractive indices of two media A and B are 2 and $\sqrt{2}$ respectively. What is the critical angle for their interface ? 2



खण्ड ग

26. (क) द्रव्यमान m और आवेश q के किसी कण को विभवान्तर V से त्वरित किया गया है। विभवान्तर V को फलन मानकर इस कण से संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य λ का ग्राफ आलेखित कीजिए।

(ख) कोई इलेक्ट्रॉन, जिसे 400 V विभवान्तर से त्वरित किया गया है, द्वारा अर्जित ऊर्जा तथा इससे संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए।

3

27. (क) किसी आदर्श संधारित्र के सिरों से कोई ac स्रोत $v = v_m \sin \omega t$ संयोजित है। (i) परिपथ में प्रवाहित धारा, और (ii) संधारित्र के प्रतिघात के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। धारा i और ωt के बीच ग्राफ आलेखित कीजिए।

3

अथवा

(ख) यदि किसी परिपथ में किसी ac वोल्टता स्रोत के सिरों से श्रेणी में कोई प्रेरक L , संधारित्र C और प्रतिरोधक R संयोजित हैं, तो परिपथ में औसत उपभुक्त शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। (i) परिशुद्ध प्रेरणिक परिपथ, और (ii) परिशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ के लिए शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए।

3

28. (क) (i) सिद्ध कीजिए कि सभी नाभिकों के लिए नाभिकीय घनत्व समान होता है।
(ii) किसी न्यूक्लियोनों के युगल के पृथकन को फलन मानकर उस युगल की स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से दो निष्कर्ष निकालिए।

3

अथवा

(ख) (i) गाइगर-मार्सडेन प्रयोग में प्रकीर्णन कोण (θ) को फलन मानकर संसूचित प्रकीर्णित कणों की संख्या (N) के विचरण को दर्शाने के लिए आलेख (ग्राफ) खींचिए।

(ii) इस आलेख से निकाले जाने वाले दो निष्कर्षों की संक्षेप में चर्चा कीजिए और लिखिए कि ये किस प्रकार परमाणु में नाभिक की खोज की ओर ले जाते हैं।

3



SECTION C

- 26.** (a) A particle of mass m and charge q is accelerated through a potential difference V . Plot a graph of de Broglie wavelength λ associated with it as a function of V .
- (b) Calculate the energy acquired by and de Broglie wavelength associated with, an electron accelerated through a potential difference of 400 V. 3
- 27.** (a) An ac source $v = v_m \sin \omega t$ is connected across an ideal capacitor. Derive the expression for the (i) current flowing in the circuit, and (ii) reactance of the capacitor. Plot a graph of current i versus ωt . 3

OR

- (b) A series combination of an inductor L , a capacitor C and a resistor R is connected across an ac source of voltage in a circuit. Obtain an expression for the average power consumed by the circuit. Find power factor for (i) purely inductive circuit, and (ii) purely resistive circuit. 3
- 28.** (a) (i) Prove that the nuclear density is same for all nuclei.
- (ii) Draw a plot of potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation. Draw two inferences from this plot. 3

OR

- (b) (i) Draw a graph to show the variation of the number of scattered particles detected (N) in Geiger-Marsden experiment as a function of scattering angle (θ).
- (ii) Discuss briefly two conclusions that can be drawn from this graph and how they lead to the discovery of nucleus in an atom. 3



29. कोई आयताकार पाश जिसकी भुजाएँ 25 cm और 20 cm की हैं, x-y तल में रखा है। इस पाश पर कोई चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = (5t^2 + 2t + 10)\hat{k}$ लगाया गया है, जहाँ B टेसला और t सेकण्डों में है। यदि पाश का प्रतिरोध 4Ω है, तो $t = 5$ s पर पाश में प्रेरित वि.वा. बल (emf) और प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए।

3

30. प्रतिरोध R के किसी लोड प्रतिरोधक के सिरों पर कोई विभवान्तर 'V' अनुप्रयुक्त किया गया है। V और R में विचरण हो सकता है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I है, तो निम्नलिखित को फलन मानकर प्रतिरोधक में उपभुक्त शक्ति के विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचिए :

3

(क) V को नियत रखते हुए R

(ख) R को नियत रखते हुए I

(ग) R को नियत रखते हुए V

खण्ड घ

31. (क) (i) किसी चल कुण्डली गैल्वैनोमीटर का सिद्धान्त लिखिए और इसकी क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। किसी गैल्वैनोमीटर का, उसके इसी रूप में, किसी परिपथ में धारा मापने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों ?

(ii) किसी चल कुण्डली गैल्वैनोमीटर में चुम्बकीय क्षेत्र अरीय क्यों बनाते हैं ? इसे किस प्रकार बनाया जाता है ?

5

अथवा

(ख) (i) किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

(ii) प्रतिचुम्बकीय पदार्थ और अनुचुम्बकीय पदार्थ के बीच विभेदन करने वाले कोई दो बिन्दु लिखिए।

5



29. A rectangular loop of sides 25 cm and 20 cm is lying in x-y plane. It is subjected to a magnetic field $\vec{B} = (5t^2 + 2t + 10)\hat{k}$, where B is in Tesla and t is in seconds. If the resistance of the loop is 4 Ω , find the emf induced and the induced current in the loop at t = 5 s. 3
30. A potential difference 'V' is applied across a load resistor of resistance R. V and R can be varied. If the current that flows in the circuit is I, draw a plot showing the variation of power consumed by the resistor as a function of : 3
- (a) R, keeping V constant
 - (b) I, keeping R constant
 - (c) V, keeping R constant

SECTION D

31. (a) (i) Write the principle and explain the working of a moving coil galvanometer. A galvanometer as such cannot be used to measure the current in a circuit. Why ?
- (ii) Why is the magnetic field made radial in a moving coil galvanometer ? How is it achieved ? 5

OR

- (b) (i) Derive an expression for magnetic field on the axis of a current carrying circular loop.
- (ii) Write any two points of difference between a diamagnetic and a paramagnetic substance. 5



32. (क) (i) वक्रता त्रिज्या 'R' के किसी अवतल दर्पण के सामने दूरी 'u' पर स्थित किसी बिम्ब के वास्तविक प्रतिबिम्ब के बनने को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। इस प्रकार, u और R के पदों में प्रतिबिम्ब दूरी 'v' के लिए संबंध प्राप्त कीजिए।
- (ii) किसी 1 m फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 1.8 m लम्बाई का कोई व्यक्ति लेंस से 5 m की दूरी पर खड़ा है। बनने वाले प्रतिबिम्ब की स्थिति और ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

5


अथवा

- (ख) (i) किसी त्रिभुजाकार काँच के प्रिज़्म से गुज़रने वाली किसी प्रकाश किरण के अपवर्तन को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। इस प्रकार, अपवर्तनांक (μ) के लिए प्रिज़्म कोण (A) और न्यूनतम विचलन कोण (δ_m) के पदों में संबंध प्राप्त कीजिए।
- (ii) किसी अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ 20 cm हैं। यदि लेंस की क्षमता $-5.0 D$ है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।

5

33. (क) (i) विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए।
- (ii) गाउस नियम का उपयोग करके किसी एकसमान रूप से आवेशित अनन्त समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
- (iii) आरेख में दर्शाए अनुसार, भुजा L का कोई घन आकाश (space) में स्थित है। इस प्रदेश में कोई विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = (Ax + B) \hat{i} \frac{N}{C}$ विद्यमान है। इस घन के भीतर बन्द नेट आवेश ज्ञात कीजिए।

5



अथवा



32. (a) (i) Draw a ray diagram showing the formation of a real image of an object placed at a distance 'u' in front of a concave mirror of radius of curvature 'R'. Hence, obtain the relation for the image distance 'v' in terms of u and R.
- (ii) A 1.8 m tall person stands in front of a convex lens of focal length 1 m, at a distance of 5 m. Find the position and height of the image formed.

5


OR

- (b) (i) Draw a ray diagram showing refraction of a ray of light through a triangular glass prism. Hence, obtain the relation for the refractive index (μ) in terms of angle of prism (A) and angle of minimum deviation (δ_m).
- (ii) The radii of curvature of the two surfaces of a concave lens are 20 cm each. Find the refractive index of the material of the lens if its power is -5.0 D.

5

33. (a) (i) Define electric flux and write its SI unit.
- (ii) Use Gauss' law to obtain the expression for the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet.
- (iii) A cube of side L is kept in space, as shown in the figure. An electric field $\vec{E} = (Ax + B) \hat{i} \frac{N}{C}$ exists in the region. Find the net charge enclosed by the cube.

5



OR



- (ख) (i) किसी बिन्दु पर विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए ।
- (ii) दो संधारित्र श्रेणी में संयोजित हैं । इस संयोजन की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए ।
- (iii) दो बिन्दु आवेश $+q$ और $-q$, x - y तल में क्रमशः बिन्दुओं $(3a, 0)$ और $(0, 4a)$ पर अवस्थित हैं । मूल-बिन्दु पर कोई तीसरा आवेश Q रखा है । q और a के पदों में Q का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे निकाय की स्थिर-वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाए ।

5

खण्ड ड

34. किसी वस्तु के कोनों, जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के तुल्य हो, पर प्रकाश तरंग का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है । विवर्तन वास्तव में किरण प्रकाशिकी की सीमाएँ परिभाषित करता है । प्रकाशिक यंत्रों के लिए सीमाएँ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित की जाती है । किसी एकल-झिरी के विवर्तन पैटर्न के प्रेक्षण के लिए कोई प्रायोगिक व्यवस्था बनायी जाती है ।

उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) यदि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में वृद्धि कर दी जाए, तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई किस प्रकार प्रभावित होगी ? 1
- (ख) प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त करने की क्या शर्त है ? 1
- (ग) व्यतिकरण और विवर्तन पैटर्नों के बीच दो अन्तर लिखिए । 2

अथवा

- (ग) दो विद्यार्थी एक 10 m ऊँची कक्ष विभाजक दीवार द्वारा 7 m के अंतर पर हैं । यदि ध्वनि और प्रकाश दोनों प्रकार की तरंगें वस्तु के किनारों पर मुड़ सकती हैं, तो फिर भी वे विद्यार्थी एक-दूसरे को देख नहीं पाते यद्यपि वे आपस में आसानी से वार्तालाप किस प्रकार कर पाते हैं ? 2



- (b) (i) Define electric potential at a point and write its SI unit.
- (ii) Two capacitors are connected in series. Derive an expression of the equivalent capacitance of the combination.
- (iii) Two point charges $+q$ and $-q$ are located at points $(3a, 0)$ and $(0, 4a)$ respectively in x-y plane. A third charge Q is kept at the origin. Find the value of Q , in terms of q and a , so that the electrostatic potential energy of the system is zero.

5

SECTION E

34. Diffraction of light is bending of light around the corners of an object whose size is comparable with the wavelength of light. Diffraction actually defines the limits of ray optics. This limit for optical instruments is set by the wavelength of light. An experimental arrangement is set up to observe the diffraction pattern due to a single slit.

Answer the following questions based on the above :


- (a) How will the width of central maximum be affected if the wavelength of light is increased ? 1
- (b) Under what condition is the first minimum obtained ? 1
- (c) Write two points of difference between interference and diffraction patterns. 2

OR

- (c) Two students are separated by a 7 m partition wall in a room 10 m high. If both light and sound waves can bend around obstacles, how is it that the students are unable to see each other even though they can converse easily ? 2



35. आरेख में दर्शाए अनुसार दो पट्टिकाओं के बीच के प्रदेश में कोई इलेक्ट्रॉन पुन्ज क्षैतिजतः 3×10^7 m/s के वेग से गतिमान है। इन पट्टिकाओं के बीच कोई उपयुक्त विभवान्तर अनुप्रयुक्त किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन पुन्ज निचली पट्टिका के किनारे से ठीक-ठीक टकराए।



उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :


- (क) किनारे से टकराने में कोई इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा ? 1
- (ख) इलेक्ट्रॉन के पथ की आकृति क्या है और क्यों ? 1
- (ग) अनुप्रयुक्त विभवान्तर ज्ञात कीजिए। 2

अथवा

- (ग) पट्टिकाओं के बीच के प्रदेश में उस चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को ज्ञात कीजिए जिसे इलेक्ट्रॉन पुन्ज को बिना विक्षेपित हुए सीधे जाने के लिए उत्पन्न किया जाना चाहिए। 2



35. A beam of electrons moving horizontally with a velocity of 3×10^7 m/s enters a region between two plates as shown in the figure. A suitable potential difference is applied across the plates such that the electron beam just strikes the edge of the lower plate.



Answer the following questions based on the above :

- (a) How long does an electron take to strike the edge ? 1
- (b) What is the shape of the path followed by the electron and why ? 1
- (c) Find the potential difference applied. 2

OR

- (c) Find the magnitude and direction of the magnetic field which should be created in the space between the plates so that the electron beam goes straight undeviated. 2

Series GEFH1/3



SET ~ 3

रोल नं.

Roll No.



प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code

55/3/3

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book. *

भौतिक विज्ञान (सैद्धान्तिक) PHYSICS (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70

नोट / NOTE :

- (i) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं ।
Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- (ii) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं ।
Please check that this question paper contains 35 questions.
- (iv) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- (v) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 19 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के दो-दो अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 30 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के पाँच-पाँच अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 34 तथा 35 केस-आधारित चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 2 प्रश्नों में, खण्ड घ के 3 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

भौतिक नियतांकों के निम्नलिखित मान, आवश्यकता अनुसार उपयोग करें:

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (} m_e \text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{न्यूट्रॉन का द्रव्यमान} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{प्रोटॉन का द्रव्यमान} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{आवोगाद्रो संख्या} = 6.023 \times 10^{23} \text{ प्रति ग्राम मोल (per gram mole)}$$

$$\text{बोल्ट्ज़मान नियतांक} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **35** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.
- (iii) In **Section A** – Questions no. **1** to **18** are Multiple Choice (MCQ) type questions, carrying **1** mark each.
- (iv) In **Section B** – Questions no. **19** to **25** are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In **Section C** – Questions no. **26** to **30** are Short Answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In **Section D** – Questions no. **31** to **33** are Long Answer (LA) type questions carrying **5** marks each.
- (vii) In **Section E** – Questions no. **34** and **35** are case-based questions carrying **4** marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 2 questions in Section C, 3 questions in Section D and 2 questions in Section E.
- (ix) Use of calculators is **not** allowed.

Use the following values of physical constants, if required :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{Mass of electron (} m_e \text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of neutron} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of proton} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Avogadro's number} = 6.023 \times 10^{23} \text{ per gram mole}$$

$$\text{Boltzmann constant} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



खण्ड क

1. किसी बाह्य परिपथ से वि.वा. बल (emf) E और आंतरिक प्रतिरोध r की कोई बैटरी संयोजित है। बैटरी के भीतर विभव पात किसके अनुपाती है ?
 - (a) परिपथ में धारा
 - (b) परिपथ का कुल प्रतिरोध
 - (c) बैटरी का वि.वा. बल (emf)
 - (d) परिपथ में शक्ति क्षय

2. तरंगदैर्घ्य λ के किसी फोटॉन का संवेग होता है :
 - (a) $\frac{h\lambda}{c^2}$
 - (b) $\frac{h\lambda}{c}$
 - (c) $\frac{h}{\lambda}$
 - (d) शून्य

3. दूरी r के पृथक्कन वाले दो पतले लम्बे समान्तर तारों A और B से समान दिशा में प्रत्येक से धारा I प्रवाहित हो रही है। तार A द्वारा तार B पर आरोपित बल प्रति एकांक लम्बाई है :
 - (a) $\frac{\mu_0 I}{2r}$, आकर्षी
 - (b) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$, प्रतिकर्षी
 - (c) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$, आकर्षी
 - (d) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, प्रतिकर्षी

4. समान लम्बाई के दो तार जिनकी त्रिज्याएँ r और $2r$ हैं, श्रेणी में संयोजित हैं। इनकी प्रतिरोधकताएँ क्रमशः 2ρ और ρ हैं। इस संयोजन से प्रवाहित समान धारा के लिए, इन तारों के सिरों पर विभव पातों का अनुपात होगा :
 - (a) 2 : 1
 - (b) 1 : 2
 - (c) 4 : 1
 - (d) 8 : 1

5. किसी संधारित्र को किसी बैटरी द्वारा आवेशित किया गया है। आवेशित करते समय संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच
 - (a) केवल विस्थापन धारा विद्यमान होती है।
 - (b) केवल चालन धारा विद्यमान होती है।
 - (c) विस्थापन धारा और चालन धारा दोनों विद्यमान रहती हैं।
 - (d) कोई धारा विद्यमान नहीं रहती है।



SECTION A

1. A battery of emf E and internal resistance r is connected to an external circuit. The potential drop within the battery is proportional to :
- (a) current in the circuit
 - (b) total resistance of the circuit
 - (c) emf of the battery
 - (d) power dissipated in the circuit
2. The momentum of a photon of wavelength λ is :
- (a) $\frac{h\lambda}{c^2}$
 - (b) $\frac{h\lambda}{c}$
 - (c) $\frac{h}{\lambda}$
 - (d) zero
3. Two thin long parallel wires A and B are separated by a distance r and carry current I each in the same direction. The force per unit length exerted by A on wire B is :
- (a) $\frac{\mu_0 I}{2r}$, attractive
 - (b) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$, repulsive
 - (c) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$, attractive
 - (d) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, repulsive
4. Two wires of equal length and radii r and $2r$ are connected in series. Their resistivities are 2ρ and ρ respectively. For the same current passing through the combination, the potential drop across their ends will be in the ratio of :
- (a) 2 : 1
 - (b) 1 : 2
 - (c) 4 : 1
 - (d) 8 : 1
5. A capacitor is charged by a battery. Between the plates, during process of charging :
- (a) only displacement current exists.
 - (b) only conduction current exists.
 - (c) both displacement current and conduction current exist.
 - (d) no current exists.




6. प्रकाश के तरंग चित्रण में, प्रकाश की तीव्रता I और तरंग के आयाम A के बीच के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जाता है :

- (a) $I \propto \sqrt{A}$
- (b) $I \propto A$
- (c) $I \propto A^2$
- (d) $I \propto \frac{1}{A^2}$


7. किसी p-n संधि डायोड के अग्रदिशिक बायसन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- (a) रोधिका विभव घट जाता है ।
- (b) अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण होता है ।
- (c) हासी स्तर की चौड़ाई बढ़ जाती है ।
- (d) अग्रदिशिक धारा विवरों और इलेक्ट्रॉनों दोनों के विसरण के कारण होती है ।


8. निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राफ किसी त्रिज्या 'a' के अनन्त लम्बाई के धारावाही सीधे तार के केन्द्र से दूरी 'r' को फलन मानकर उसके बाहर के चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण के विचरण का सही निरूपण करता है ?




(a)



(b)



(c)



(d)

9. कार्य फलन 2.14 eV की किसी धातु पर आवृत्ति $6.4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ का प्रकाश आपतन कर रहा है । उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी लगभग :

- (a) 0.25 eV
- (b) 0.51 eV
- (c) 1.02 eV
- (d) 0.10 eV




6. In the wave picture of light, the intensity I of light is related to the amplitude A of the wave as :

- (a) $I \propto \sqrt{A}$
- (b) $I \propto A$
- (c) $I \propto A^2$
- (d) $I \propto \frac{1}{A^2}$


7. For the forward biasing of a p-n junction diode, which of the following statements is **not** correct ?

- (a) The potential barrier decreases.
- (b) Minority carrier injection occurs.
- (c) Width of depletion layer increases.
- (d) Forward current is due to the diffusion of both holes and electrons.


8. Which of the following graphs correctly represents the variation of the magnitude of the magnetic field outside a straight infinite current carrying wire of radius 'a', as a function of distance 'r' from the centre of the wire ?




(a)



(b)



(c)



(d)

9. Light of frequency 6.4×10^{14} Hz is incident on a metal of work function 2.14 eV. The maximum kinetic energy of the emitted electrons is about :

- (a) 0.25 eV
- (b) 0.51 eV
- (c) 1.02 eV
- (d) 0.10 eV



10. किसी वोल्टता सिग्नल का किसी चक्र के लिए वर्णन इस प्रकार किया गया है :

$$v = V_0 \quad 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \text{ के लिए}$$

$$= 0 \quad \frac{T}{2} \leq t \leq T \text{ के लिए}$$

इसका rms मान है :

(a) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$

(b) V_0

(c) $\frac{V_0}{2}$

(d) $\sqrt{2} V_0$

11. किसी नैज अर्धचालक में किसी निश्चित ताप पर इलेक्ट्रॉनों और विवरों की सांद्रता $1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ है। जब इसे त्रिसंयोजक अपमिश्रक से मादित किया जाता है, तो विवर सांद्रता बढ़कर $4.5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$ हो जाती है। मादित अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता (n_e) होगी :

(a) $3 \times 10^6 \text{ m}^{-3}$

(b) $5 \times 10^7 \text{ m}^{-3}$

(c) $5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$

(d) $6.75 \times 10^{38} \text{ m}^{-3}$

12. किसी एकल-झिरी विवर्तन प्रयोग में, झिरी की चौड़ाई आधी कर दी जाती है। विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई हो जाएगी :

(a) आधी

(b) दुगुनी

(c) चार गुनी

(d) एक-चौथाई

13. बोर के मॉडल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम आवृत्ति और निम्नतम आवृत्ति का अनुपात होता है :

(a) $\frac{11}{9}$

(b) $\frac{9}{5}$

(c) $\frac{11}{7}$

(d) $\frac{16}{7}$



10. A voltage signal is described by :

$$v = V_0 \quad \text{for } 0 \leq t \leq \frac{T}{2}$$
$$= 0 \quad \text{for } \frac{T}{2} \leq t \leq T$$

for a cycle. Its rms value is :

(a) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$

(b) V_0

(c) $\frac{V_0}{2}$

(d) $\sqrt{2} V_0$

11. At a certain temperature in an intrinsic semiconductor, the electrons and holes concentration is $1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$. When it is doped with a trivalent dopant, hole concentration increases to $4.5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$. In the doped semiconductor, the concentration of electrons (n_e) will be :

(a) $3 \times 10^6 \text{ m}^{-3}$

(b) $5 \times 10^7 \text{ m}^{-3}$

(c) $5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$

(d) $6.75 \times 10^{38} \text{ m}^{-3}$

12. In a single-slit diffraction experiment, the width of the slit is halved. The width of the central maximum, in the diffraction pattern, will become :

(a) half

(b) twice

(c) four times

(d) one-fourth

13. The ratio of maximum frequency and minimum frequency of light emitted in Balmer series of hydrogen spectrum, in Bohr's model is :

(a) $\frac{11}{9}$


(b) $\frac{9}{5}$

(c) $\frac{11}{7}$

(d) $\frac{16}{7}$



14. दो सेलों, जिनमें प्रत्येक का वि.वा. बल (emf) E और आंतरिक प्रतिरोध r और $2r$ है, आरेख में दर्शाए अनुसार पार्श्व में संयोजित हैं। इस संयोजन का समतुल्य वि.वा. बल (emf) है :



- (a) शून्य (b) $\frac{E}{2}$
(c) $\frac{E}{3}$ (d) E
15. कोई प्रेरक, कोई संधारित्र और कोई प्रतिरोधक श्रेणी में किसी ac वोल्टता स्रोत के सिरों से संयोजित हैं। यदि स्रोत की आवृत्ति को धीरे-धीरे घटाया जाए, तो :
- (a) प्रेरक और संधारित्र दोनों के प्रतिघात घटते हैं।
(b) प्रेरक का प्रतिघात घटता है और संधारित्र का प्रतिघात बढ़ता है।
(c) प्रेरक और संधारित्र दोनों के प्रतिघात बढ़ते हैं।
(d) प्रेरक का प्रतिघात बढ़ता है और संधारित्र का प्रतिघात घटता है।


प्रश्न संख्या 16 से 18 अभिकथन (A) और कारण (R) प्रकार के प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।

- (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(c) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) ग़लत है।
(d) अभिकथन (A) ग़लत है और कारण (R) भी ग़लत है।
16. अभिकथन (A) : नाभिक ${}^4_3\text{Y}$ की अपेक्षा नाभिक ${}^7_3\text{X}$ अधिक स्थायी है।

कारण (R) : ${}^7_3\text{X}$ में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है।



14. Two cells of emf E each and internal resistances r and $2r$ are connected in parallel as shown in the figure. The equivalent emf of the combination is :



- (a) zero (b) $\frac{E}{2}$
(c) $\frac{E}{3}$ (d) E
15. An inductor, a capacitor and a resistor are connected in series across an ac source of voltage. If the frequency of the source is decreased gradually, the reactance of :
- (a) both the inductor and the capacitor decreases.
(b) inductor decreases and the capacitor increases.
(c) both the inductor and the capacitor increases.
(d) inductor increases and the capacitor decreases.

Questions number 16 to 18 are Assertion (A) and Reason (R) type questions. Two statements are given — one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
(b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
(c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
(d) Assertion (A) is false and Reason (R) is also false.

16. Assertion (A): The nucleus ${}^7_3\text{X}$ is more stable than the nucleus ${}^4_3\text{Y}$.

Reason (R): ${}^7_3\text{X}$ contains more number of protons.



17. **अभिकथन (A) :** किसी सेल का आन्तरिक प्रतिरोध नियत रहता है ।
कारण (R) : उपयोग करते समय सेल के विद्युत-अपघट्य की आयनी सांद्रता समान रहती है ।
18. **अभिकथन (A) :** जब किसी वृत्ताकार पाश, जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, की त्रिज्या दुगुनी की जाती है, तो उसका चुम्बकीय आघूर्ण चार गुना हो जाता है ।
कारण (R) : किसी वृत्ताकार पाश, जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, का चुम्बकीय आघूर्ण उस पाश के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है ।

खण्ड ख

19. किसी p-n संधि के उस गुण की व्याख्या कीजिए जो इसे प्रत्यावर्ती वोल्टताओं के दिष्टकरण के लिए उपयुक्त बनाता है । पूर्ण-तरंग दिष्टकारी और अर्ध-तरंग दिष्टकारी के बीच विभेदन कीजिए । 2
20. (क) द्रव्यमान संख्या A को फलन मानकर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन के विचरण को दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए । भारी नाभिकों ($A > 170$) के लिए द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन घटती है । व्याख्या कीजिए । 2
- अथवा**
- (ख) बोर अभिगृहीतों का उपयोग करते हुए, हाइड्रोजन परमाणु में n वीं स्थाई कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए । 2
21. 'विस्थापन धारा' से क्या तात्पर्य है ? संक्षेप में व्याख्या कीजिए कि यह धारा चालन धारा से किस प्रकार भिन्न है । 2
22. लम्बाई L के किसी तार को (i) वर्ग के रूप में, और फिर (ii) समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है । यदि दोनों तारों से समान धारा I प्रवाहित की जाती है, तो वर्ग पाश के चुम्बकीय आघूर्ण से त्रिभुज के चुम्बकीय आघूर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए । 2
23. (क) हाइगेन्स सिद्धान्त लिखिए । हाइगेन्स ने पश्च तरंग की अनुपस्थिति की व्याख्या किस प्रकार की ? 2
- अथवा**
- (ख) हाइगेन्स सिद्धान्त का उपयोग करके (i) अवतल दर्पण, तथा (ii) उत्तल लेंस द्वारा किसी समतल तरंग का परावर्तन/अपवर्तन दर्शाइए । 2



17. *Assertion (A)* : The internal resistance of a cell is constant.
Reason (R) : Ionic concentration of the electrolyte remains same during use of a cell.
18. *Assertion (A)* : When radius of a circular loop carrying a steady current is doubled, its magnetic moment becomes four times.
Reason (R): The magnetic moment of a circular loop carrying a steady current is proportional to the area of the loop.

SECTION B

19. Explain the property of a p-n junction which makes it suitable for rectifying alternating voltages. Differentiate between a half-wave and a full-wave rectifier. 2
20. (a) Draw a graph showing the variation of binding energy per nucleon as a function of mass number A . The binding energy per nucleon for heavy nuclei ($A > 170$) decreases with the increase in mass number. Explain. 2
- OR**
- (b) Using Bohr's postulates, obtain the expression for radius of n^{th} stable orbit in a hydrogen atom. 2
21. What is meant by the term 'displacement current' ? Briefly explain how this current is different from a conduction current. 2
22. A wire of length L is bent round in the form of (i) a square, and then (ii) an equilateral triangle. If current I is passed through each of them, find the ratio of magnetic moment of the square loop to that of the triangle. 2
23. (a) State Huygens' principle. How did Huygens explain the absence of the backwave ? 2
- OR**
- (b) Use Huygens' principle to show reflection/refraction of a plane wave by (i) concave mirror, and (ii) a convex lens. 2



24. दो माध्यमों A और B के अपवर्तनांक क्रमशः 2 और $\sqrt{2}$ हैं। इन दोनों के अन्तरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण क्या है ? 2
25. किसी p-n संधि डायोड का (क) अग्रदिशिक बायसन, और (ख) पश्चदिशिक बायसन में परिपथ आरेख खींचिए। प्रत्येक प्रकरण के लिए V – I अभिलाक्षणिक खींचिए। 2

खण्ड ग

26. (क) किसी आदर्श संधारित्र के सिरो से कोई ac स्रोत $v = v_m \sin \omega t$ संयोजित है। (i) परिपथ में प्रवाहित धारा, और (ii) संधारित्र के प्रतिघात के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। धारा i और ωt के बीच ग्राफ आलेखित कीजिए। 3

अथवा

- (ख) यदि किसी परिपथ में किसी ac वोल्टता स्रोत के सिरो से श्रेणी में कोई प्रेरक L, संधारित्र C और प्रतिरोधक R संयोजित हैं, तो परिपथ में औसत उपभुक्त शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। (i) परिशुद्ध प्रेरणिक परिपथ, और (ii) परिशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ के लिए शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। 3
27. (क) (i) सिद्ध कीजिए कि सभी नाभिकों के लिए नाभिकीय घनत्व समान होता है।
(ii) किसी न्यूक्लियोनों के युगल के पृथकन को फलन मानकर उस युगल की स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से दो निष्कर्ष निकालिए। 3

अथवा

- (ख) (i) गाइगर-मार्सडेन प्रयोग में प्रकीर्णन कोण (θ) को फलन मानकर संसूचित प्रकीर्णित कणों की संख्या (N) के विचरण को दर्शाने के लिए आलेख (ग्राफ) खींचिए।
(ii) इस आलेख से निकाले जाने वाले दो निष्कर्षों की संक्षेप में चर्चा कीजिए और लिखिए कि ये किस प्रकार परमाणु में नाभिक की खोज की ओर ले जाते हैं। 3



24. The refractive indices of two media A and B are 2 and $\sqrt{2}$ respectively. What is the critical angle for their interface? 2
25. Draw a circuit diagram of a p-n junction diode in (a) forward biasing, and (b) reverse biasing. Draw the V – I characteristics for each case. 2

SECTION C

26. (a) An ac source $v = v_m \sin \omega t$ is connected across an ideal capacitor. Derive the expression for the (i) current flowing in the circuit, and (ii) reactance of the capacitor. Plot a graph of current i versus ωt . 3

OR

- (b) A series combination of an inductor L , a capacitor C and a resistor R is connected across an ac source of voltage in a circuit. Obtain an expression for the average power consumed by the circuit. Find power factor for (i) purely inductive circuit, and (ii) purely resistive circuit. 3

27. (a) (i) Prove that the nuclear density is same for all nuclei.
(ii) Draw a plot of potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation. Draw two inferences from this plot. 3


OR

- (b) (i) Draw a graph to show the variation of the number of scattered particles detected (N) in Geiger-Marsden experiment as a function of scattering angle (θ).
(ii) Discuss briefly two conclusions that can be drawn from this graph and how they lead to the discovery of nucleus in an atom. 3




28. आरेख में एक आयताकार चालक PQRS दर्शाया गया है जिसकी भुजा PQ की लम्बाई 10 cm और प्रतिरोध 0.4Ω है तथा यह गति करने के लिए स्वतंत्र है। इसे किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $B = 0.2 \text{ T}$, जो PQRS के तल के लम्बवत भीतर की ओर कार्यरत है, में रखा गया है। यदि भुजा PQ को 5 cm/s के वेग v से, दर्शाए अनुसार गति करायी जाए, तो ज्ञात कीजिए :

3



- (क) पाश में प्रेरित विद्युत धारा, तथा
(ख) इस भुजा को गति कराने के लिए आवश्यक शक्ति।
(भुजाओं PS, SR और RQ के प्रतिरोध उपेक्षणीय हैं।)
29. किसी चालक से प्रवाहित धारा और उसके भीतर इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के बीच संबंध प्राप्त कीजिए। इस प्रकार ओम का नियम प्राप्त कीजिए।
30. (क) आरेख में दो कर्णों A और B जिन पर समान आवेश हैं परन्तु द्रव्यमान भिन्न हैं, की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य (λ) को $\frac{1}{\sqrt{V}}$ के फलन के रूप में दर्शाया गया है, जहाँ V वह विभवान्तर है जिससे कर्णों को त्वरित किया गया है।

3




- (i) इन कर्णों में से कौन-सा अधिक भारी है और क्यों ?
(ii) रेखा की प्रवणता क्या निरूपित करती है ?
- (ख) उस इलेक्ट्रॉन का संवेग परिकलित कीजिए जिसकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य 3.0 \AA है।


3



28. The figure shows a rectangular conductor PQRS in which the arm PQ of length 10 cm and resistance 0.4Ω is free to move. It is kept in a uniform magnetic field $B = 0.2 \text{ T}$ acting perpendicular into the plane of PQRS. If arm PQ is moved with a velocity v of 5 cm/s as shown, find : 3



- (a) the current induced in the loop, and
(b) the power required to move the arm.
(Resistances of arms PS, SR and RQ are negligible.)
29. Obtain a relation between the current flowing in a conductor and drift velocity of electrons in it. Hence, obtain Ohm's law. 3
30. (a) The figure shows de Broglie wavelength (λ) for two particles A and B having same charges but different masses as a function of $\frac{1}{\sqrt{V}}$, where V is the potential through which the particles are accelerated.



- (i) Which of them is heavier and why ?
(ii) What does the slope of the line represent ?
- (b) Calculate the momentum of an electron having de Broglie wavelength of 3.0 \AA . 3



खण्ड घ

31. (क) (i) वक्रता त्रिज्या 'R' के किसी अवतल दर्पण के सामने दूरी 'u' पर स्थित किसी बिम्ब के वास्तविक प्रतिबिम्ब के बनने को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। इस प्रकार, u और R के पदों में प्रतिबिम्ब दूरी 'v' के लिए संबंध प्राप्त कीजिए।
- (ii) किसी 1 m फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 1.8 m लम्बाई का कोई व्यक्ति लेंस से 5 m की दूरी पर खड़ा है। बनने वाले प्रतिबिम्ब की स्थिति और ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

5


अथवा

- (ख) (i) किसी त्रिभुजाकार काँच के प्रिज़्म से गुज़रने वाली किसी प्रकाश किरण के अपवर्तन को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। इस प्रकार, अपवर्तनांक (μ) के लिए प्रिज़्म कोण (A) और न्यूनतम विचलन कोण (δ_m) के पदों में संबंध प्राप्त कीजिए।
- (ii) किसी अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ 20 cm हैं। यदि लेंस की क्षमता $-5.0 D$ है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।

5

32. (क) (i) विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए।
- (ii) गाउस नियम का उपयोग करके किसी एकसमान रूप से आवेशित अनन्त समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
- (iii) आरेख में दर्शाए अनुसार, भुजा L का कोई घन आकाश (space) में स्थित है। इस प्रदेश में कोई विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = (Ax + B) \hat{i} + \frac{N}{C}$ विद्यमान है। इस घन के भीतर बन्द नेट आवेश ज्ञात कीजिए।

5



अथवा



SECTION D

31. (a) (i) Draw a ray diagram showing the formation of a real image of an object placed at a distance 'u' in front of a concave mirror of radius of curvature 'R'. Hence, obtain the relation for the image distance 'v' in terms of u and R.
- (ii) A 1.8 m tall person stands in front of a convex lens of focal length 1 m, at a distance of 5 m. Find the position and height of the image formed.

5


OR

- (b) (i) Draw a ray diagram showing refraction of a ray of light through a triangular glass prism. Hence, obtain the relation for the refractive index (μ) in terms of angle of prism (A) and angle of minimum deviation (δ_m).
- (ii) The radii of curvature of the two surfaces of a concave lens are 20 cm each. Find the refractive index of the material of the lens if its power is -5.0 D.

5

32. (a) (i) Define electric flux and write its SI unit.
- (ii) Use Gauss' law to obtain the expression for the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet.
- (iii) A cube of side L is kept in space, as shown in the figure. An electric field $\vec{E} = (Ax + B) \hat{i} \frac{N}{C}$ exists in the region. Find the net charge enclosed by the cube.

5



OR



- (ख) (i) किसी बिन्दु पर विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए ।
- (ii) दो संधारित्र श्रेणी में संयोजित हैं । इस संयोजन की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए ।
- (iii) दो बिन्दु आवेश $+q$ और $-q$, x - y तल में क्रमशः बिन्दुओं $(3a, 0)$ और $(0, 4a)$ पर अवस्थित हैं । मूल-बिन्दु पर कोई तीसरा आवेश Q रखा है । q और a के पदों में Q का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे निकाय की स्थिर-वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाए ।

5

33. (क) (i) किसी चल कुण्डली गैल्वैनोमीटर का सिद्धान्त लिखिए और इसकी क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए । किसी गैल्वैनोमीटर का, उसके इसी रूप में, किसी परिपथ में धारा मापने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है । क्यों ?
- (ii) किसी चल कुण्डली गैल्वैनोमीटर में चुम्बकीय क्षेत्र अरीय क्यों बनाते हैं ? इसे किस प्रकार बनाया जाता है ?

5

अथवा

- (ख) (i) किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए ।
- (ii) प्रतिचुम्बकीय पदार्थ और अनुचुम्बकीय पदार्थ के बीच विभेदन करने वाले कोई दो बिन्दु लिखिए ।

5



- (b) (i) Define electric potential at a point and write its SI unit.
- (ii) Two capacitors are connected in series. Derive an expression of the equivalent capacitance of the combination.
- (iii) Two point charges $+q$ and $-q$ are located at points $(3a, 0)$ and $(0, 4a)$ respectively in x-y plane. A third charge Q is kept at the origin. Find the value of Q , in terms of q and a , so that the electrostatic potential energy of the system is zero. 5

- 33.** (a) (i) Write the principle and explain the working of a moving coil galvanometer. A galvanometer as such cannot be used to measure the current in a circuit. Why ?
- (ii) Why is the magnetic field made radial in a moving coil galvanometer ? How is it achieved ? 5


OR

- (b) (i) Derive an expression for magnetic field on the axis of a current carrying circular loop.
- (ii) Write any two points of difference between a diamagnetic and a paramagnetic substance. 5



खण्ड ड

34. आरेख में दर्शाए अनुसार दो पट्टिकाओं के बीच के प्रदेश में कोई इलेक्ट्रॉन पुन्ज क्षैतिजतः 3×10^7 m/s के वेग से गतिमान है। इन पट्टिकाओं के बीच कोई उपयुक्त विभवान्तर अनुप्रयुक्त किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन पुन्ज निचली पट्टिका के किनारे से ठीक-ठीक टकराए।



उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) किनारे से टकराने में कोई इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा ? 1
(ख) इलेक्ट्रॉन के पथ की आकृति क्या है और क्यों ? 1
(ग) अनुप्रयुक्त विभवान्तर ज्ञात कीजिए। 2

अथवा

- (ग) पट्टिकाओं के बीच के प्रदेश में उस चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को ज्ञात कीजिए जिसे इलेक्ट्रॉन पुन्ज को बिना विक्षेपित हुए सीधे जाने के लिए उत्पन्न किया जाना चाहिए। 2

35. किसी वस्तु के कोनों, जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के तुल्य हो, पर प्रकाश तरंग का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन वास्तव में किरण प्रकाशिकी की सीमाएँ परिभाषित करता है। प्रकाशिक यंत्रों के लिए सीमाएँ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं। किसी एकल-झिरी के विवर्तन पैटर्न के प्रेक्षण के लिए कोई प्रायोगिक व्यवस्था बनायी जाती है।

उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में वृद्धि कर दी जाए, तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई किस प्रकार प्रभावित होगी ? 1
(ख) प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त करने की क्या शर्त है ? 1
(ग) व्यतिकरण और विवर्तन पैटर्नों के बीच दो अन्तर लिखिए। 2


अथवा

- (ग) दो विद्यार्थी एक 10 m ऊँची कक्ष विभाजक दीवार द्वारा 7 m के अंतर पर हैं। यदि ध्वनि और प्रकाश दोनों प्रकार की तरंगें वस्तु के किनारों पर मुड़ सकती हैं, तो फिर भी वे विद्यार्थी एक-दूसरे को देख नहीं पाते यद्यपि वे आपस में आसानी से वार्तालाप किस प्रकार कर पाते हैं ? 2



SECTION E

34. A beam of electrons moving horizontally with a velocity of 3×10^7 m/s enters a region between two plates as shown in the figure. A suitable potential difference is applied across the plates such that the electron beam just strikes the edge of the lower plate.



Answer the following questions based on the above :

- (a) How long does an electron take to strike the edge ? 1
- (b) What is the shape of the path followed by the electron and why ? 1
- (c) Find the potential difference applied. 2

OR

- (c) Find the magnitude and direction of the magnetic field which should be created in the space between the plates so that the electron beam goes straight undeviated. 2

35. Diffraction of light is bending of light around the corners of an object whose size is comparable with the wavelength of light. Diffraction actually defines the limits of ray optics. This limit for optical instruments is set by the wavelength of light. An experimental arrangement is set up to observe the diffraction pattern due to a single slit.

Answer the following questions based on the above :

- (a) How will the width of central maximum be affected if the wavelength of light is increased ? 1
- (b) Under what condition is the first minimum obtained ? 1
- (c) Write two points of difference between interference and diffraction patterns. 2

OR

- (c) Two students are separated by a 7 m partition wall in a room 10 m high. If both light and sound waves can bend around obstacles, how is it that the students are unable to see each other even though they can converse easily ? 2